



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखण्ड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 15-11-2022

उधम सिंह नगर(उत्तराखण्ड ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-11-15 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-11-16	2022-11-17	2022-11-18	2022-11-19	2022-11-20
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	8.0	8.0	9.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	270	310	320	320	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (8 - 14 नवम्बर, 2022) में 0.0 मिमी वर्षा हुई व आसमान साफ रहने के साथ कहीं-कहीं बादल छायें रहे। अधिकतम तापमान 26.5 से 28.0 डिग्री से 0 एवं न्यूनतम तापमान 8.5 से 17.9 डिग्री से 0 के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 84 से 95 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 38 से 69 प्रतिशत एवं हवा 0.0 से 1.3 किमी/घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पूर्व-उत्तर-पूर्व व पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0-27.0 व 8.0-9.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पश्चिम व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 20 से 26 नवम्बर के दौरान राज्य में वर्षा, अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपके स्थान की कृषि मौसम संबंधी सलाह अब मेघदूत मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया निम्न लिंक से डाउनलोड करें: एंड्रॉयड: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot> आईओएस: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155> पेड़ी गन्ना के रस में ब्रिक्स की मात्रा जाचते रहें। जब ब्रिक्स की मात्रा 18 प्रतिशत हो जाय तब नवम्बर माह में मिल से पर्ची आते ही सर्वप्रथम गन्ने की कटाई कर गन्ना मिल में भेजे तथा खाली हुए खेत की तैयारी कर रबी फसलों की समय से बुवाई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। किसान भाई रबी फसलों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें व फसलों की

**बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें।**

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	सिंचित दशा में चने की सामान्य बुवाई नवम्बर के दूसरे पखवाड़े में पूरी कर लें। चना की उन्नतशील प्रजातियों -पूसा 256, के 0-850, अवरोधी, पंत जी-114, पंत जी-186, पंत काबुली चना-1 आदि की बुवाई सिंचित दशा में 45 से 0मी0 की दूरी पर बने लाईनों में 6-8 से 0मी0 गहराई पर करें। बुवाई से पूर्व स्वयं उत्पादित बीजों को बीज जनित रोगों से बचाव हेतु सर्वप्रथम 1 ग्राम कार्बोडाजिम तथा 2 ग्राम थायरम के मिश्रण से शोधित करें। इसके उपरान्त राइजोबियम कल्चर एवं फास्फोरस घोलक कल्चर से भी उपचारित करें। बुवाई हेतु बीज दर छोटे एवं मध्यम आकार के बीज वाली प्रजातियों के 60-80 कि0ग्रा0/है0 तथा मोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 80-100 कि0ग्रा0/है0 रखें। बुवाई से पूर्व खेत में 15-20 कि0ग्रा0 नत्रजन, 40-50 कि0ग्रा0 फास्फोरस तथा 20-30 कि0ग्रा0 पोटाश /है0 प्रयोग करें।
जौ	सिंचित दशा में जौ की बुवाई माह के द्वितीय पखवाड़े में करें।
गेहूँ	गेहूँ की बुवाई करें व फसल की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। गेहूँ के बीज का उपचार कार्बोक्सिन 2 ग्राम/किग्रा से या टेक्कुनाजोल 1.5 ग्राम/किग्रा बीज की दर से करें।
गन्ना	शरदकालीन गन्ना में बुवाई के 25-30 दिन पर निराई-गुड़ाई करें। आवश्यकतानुसार बुवाई के 30-40 दिन बाद सिंचाई करें।
मूली	मूली की बुवाई वर्षभर चलती है। यूरोपियन प्रजातियों हेतु 6-8 किग्रा बीज तथा एशियन प्रजातियों हेतु 10-12 किग्रा बीज की आवश्यकता होगी। मूली के बीज बोने से पहले खेत में गोबर की खाद (सड़ी हुई) का प्रयोग करें। मृदा जांच के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। कतार की दूरी 20-25 सेमी रखें तथा बीज बोने पर अंकुरण होने पर अनावश्यक पौधों को उखाड़कर अलगकर पौधों से पौधों की दूरी 8-10 सेमी सुनिश्चित करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैन्कोजेब का 2.5 ग्रा0 प्रति ली0 पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
टमाटर	टमाटर में उपरी पत्तियों सिकुड़ने या चित्तकबरी होने की स्थिति में संक्रमित पौधों को निकालकर नष्ट कर दें तथा रोगवाहक कीटों के नियंत्रण हेतु किसी सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।
गाय	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।